



प्रतिशत को दशमलव में बदलें

नाम: \_\_\_\_\_

दिनांक: \_\_\_\_\_ स्कोर: \_\_\_\_\_

$0.54 = \underline{\hspace{2cm}}\%$

$1.91 = \underline{\hspace{2cm}}\%$

$1.8 = \underline{\hspace{2cm}}\%$

$0.17 = \underline{\hspace{2cm}}\%$

$1.95 = \underline{\hspace{2cm}}\%$

$1 = \underline{\hspace{2cm}}\%$

$0.36 = \underline{\hspace{2cm}}\%$

$1.01 = \underline{\hspace{2cm}}\%$

$1.46 = \underline{\hspace{2cm}}\%$

$1.93 = \underline{\hspace{2cm}}\%$

$1.06 = \underline{\hspace{2cm}}\%$

$1.35 = \underline{\hspace{2cm}}\%$

$1 = \underline{\hspace{2cm}}\%$

$1.84 = \underline{\hspace{2cm}}\%$

$1.21 = \underline{\hspace{2cm}}\%$

$1.66 = \underline{\hspace{2cm}}\%$

$0.33 = \underline{\hspace{2cm}}\%$

$0.17 = \underline{\hspace{2cm}}\%$

$1.21 = \underline{\hspace{2cm}}\%$

$0.53 = \underline{\hspace{2cm}}\%$



प्रतिशत को दशमलव में बदलें

नाम: \_\_\_\_\_

दिनांक: \_\_\_\_\_ स्कोर: \_\_\_\_\_

$$0.54 = 54\%$$

$$1.91 = 191\%$$

$$1.8 = 180\%$$

$$0.17 = 17\%$$

$$1.95 = 195\%$$

$$1 = 100\%$$

$$0.36 = 36\%$$

$$1.01 = 101\%$$

$$1.46 = 146\%$$

$$1.93 = 193\%$$

$$1.06 = 106\%$$

$$1.35 = 135\%$$

$$1 = 100\%$$

$$1.84 = 184\%$$

$$1.21 = 121\%$$

$$1.66 = 166\%$$

$$0.33 = 33\%$$

$$0.17 = 17\%$$

$$1.21 = 121\%$$

$$0.53 = 53\%$$